



# Brief Report

**Committee of Waste management and Green Audit in association with Department of Botany and Geography, Nehru Gram Bharati (Deemed to be University), Prayagraj organise:  
“Awareness Workshop for Carbon Neutrality; a sustainable Practices”  
On Occasion of  
World Environment Day (June 05-11, 2023)**

## **About the Nehru Gram Bharati (Deemed to be University), Prayagraj:**

Nehru Gram Bharti (Deemed to be University) occupies an esteemed place among the ruler universities of India for over decades now. Established on 27th June 2008, it is one of the promising institutes in the state of Uttar Pradesh situated at the bank of river Ganges. It was basically conceived by our 1<sup>st</sup> Prime Minister of India, Late Pt. Jawahar Lal Nehru, who laid the foundation stone of Nehru Gram Bharti on 26<sup>th</sup> July 1962 in the village of “Rishi Durvasha Ashram” Kotwa, Jamunipur, Dubawal Complex of his popular consultancy in Prayagraj district. His dream translated into reality by Shri. J.N. Mishra, who had a clear vision and dedication to the cause of upliftment of ruler message through education. As on date, the campus has emerged as a prominent establishment of professional, technical education and traditional education for meeting the aspirations of youth from ruler as well as urban areas. To begin with “Rajiv Gandhi Degree College” was established in the year 1996 and upgraded to “Rajiv Gandhi Post Graduate College” from the academic session 2000-01 which subsequently merge into the ‘Nehru Gram Bharti (Deemed to be University)’ in 2008-09 after University Grants Commission recommended to the Ministry of Human Resources and Development for granting it Deemed to be university status. The MHRD notified vide its gazette Notification no: F.9-42/2005-43(A) dated as 27<sup>th</sup> June 2008 bestowing the Deemed to be university status to Nehru Gram Bharti. University is composed of 6 campuses in encircling approximately 76 acres of land spread over within a radius of about 5 km.

## **About the Programme:**

The focus is on sustainable development in the direction of the biotechnology, bioprocessing as well as bioenergy for sustainable development. Specifically, the uses thermochemical/biological conversion to convert biomass from green cultivation, waste treatment and other organic solid waste into low-carbon energy and high-value chemicals to help achieve carbon neutrality.

## **Patrons:**

**Sri J.N. Mishra**

**Honorable Chancellor NGB (DU)**

**Prof. S.K. Srivastava**

**Vice-Chancellor NGB (DU)**

**Dr. S.C. Tiwari**

**Pro Vice-Chancellor NGB (DU)**

## **Organizing Secretary:**

**Dr. Sanjay Bharati**

**Department of Geography**

**Nehru Gram Bharati (Deemed to be University)**

## **Convener:**

**Dr. Adi Nath**

**Department of Botany**

**Nehru Gram Bharati (Deemed to be University)**

## **Co-convener:**

**Dr. Durgesh Nandani Goswami**

**Department of Chemistry**

**Nehru Gram Bharati (Deemed to be University)**

## **Co -Organizing Secretary:**

**Dr. Anita Singh**

**Department of Chemistry**

**Nehru Gram Bharati (Deemed to be University)**

## **Organizing Committee**

- 1. Dr. Rudra P. Ojha, Director, Research, NGB**
- 2. Dr. Asheesh Shivam Mishra, Deptt. of Zoology, NGB**
- 3. Dr. Archana Suhukla, Deptt. of Mathematics, NGB**
- 4. Dr. Vikram Singh, Deptt. of Physics, NGB**
- 5. Mr. Pradeep Upadhyay, Deptt. of Botany, NGB**
- 6. Dr. Shakti Nath Tripathi, Deptt. of Botany, NGB**
- 7. Dr. Dheeraj Pandey, Deptt. of Botany, NGB**



**Advisory Committee:**

1. Prof. R.C. Tripathi, Prof. Incharge R&D, NGB
2. Prof. Rohit Ramesh, Dean, Faculty of Management, NGB
3. Sri R.L. Vishwakarma, Registrar, NGB
4. Dr. Prabuddha Mishra, Director, Jamunipur Campus, NGB
5. Dr. Asheesh Shivan, Dean, Faculty of Science, NGB
6. Dr. S. S. Mishra, Director IQAC, NGB
7. Dr. R.C. Mishra, Head, Dept. of Political Science, NGB
8. Dr. Himanshu Tandon, Joint Registrar, NGB

**Activities Detail:**

**Monday, 05<sup>TH</sup> June, 2023**

Venue	Nehru Gram Bharati Deemed to be University Research Centre Shashi Campus, Prayagraj
12:00 Noon	IL1-Prof. H.N. Misra, Professor and Ex-Head, Department of Geography, University of Allahabad, Prayagraj
1:00PM	Plantation Programme in the Leadership of Department of Teacher Education

**06<sup>TH</sup> JUNE 2023 II<sup>nd</sup> Day**

Venue	Nehru Gram Bharati Deemed to be University, Department of Botany, Research Laboratory, Prayagraj
Theme	Bio-deterioration
11:45am-12:30 pm	IL1 – Prof. D.K. Chauhan, Ex-Head, Deptt. of Botany, University of Allahabad, Prayagaraj IL 2- Dr. N.B. Singh, Deptt. of Botany, University of Allahabad, Prayagaraj
12:30 pm	Plastic free practices

**07<sup>TH</sup> JUNE, 2023, III Day**

Venue	Nehru Gram Bharati Deemed to be University, Department of Botany, Research Laboratory, Prayagraj
Theme:	Bio-degradation
11:45am-12:30 pm	IL1 – Dr. Rudra P. Ojha, Director Research, NGB(DU)
12:30 PM	Clean Ganga practices, plogging drive

**08<sup>TH</sup> June, 2023 IV<sup>th</sup> Day**

Venue	Nehru Gram Bharati Deemed to be University, Department of Botany, Research Laboratory, Prayagraj
Theme	Bio-fuel, Biohydrogen, Biomethanol, Biomethanol production
011:45am -12:30noon	IL-1 Dr. Adi Nath, Department of Botany, NGB(DU)
01:00pm	Weed management practices



**09<sup>TH</sup> June , 2023 (V Day)**

Venue	Nehru Gram Bharati Deemed to be University, Department of Botany, Research Laboratory, Prayagraj
Theme:	Natural, Synthetic or refined materials such as metals, hydrocarbons and oils , foodstuffs and beverages
11:45am - 12:30noon	IL-1Dr. Asheesh Shivam, Dept. of Zoology, NGB(DU)
01:00pm	Bio-remediation, Bio-magnification and Bio-augmentation practices

**10<sup>TH</sup> June, 2023 (VI Day)**

Venue	Nehru Gram Bharati Deemed to be University, Department of Botany, Research Laboratory, Prayagraj
03:00 PM	Save Soil and Water Conservation; a pledge (Sankalp)

**11<sup>TH</sup> June, 2023 (VII Day)**

Venue	Nehru Gram Bharati Deemed to be University, Department of Botany, Research Laboratory, Prayagraj
Theme:	Biomass, Bio-energy, Bio-products, Corrosion, fouling, rotting, decay, Infection, disfigurement, toxification, weakening or processes that liquefy, detoxify, or mineralize
11:45am - 12:30noon	IL.1 Dr. Sanjay Singh, Department of Physics, NGBDU IL. Dr. Arvind Pandey, Department of Chemistry, NGB(DU)
01:00pm	Bio waste management practices and Waste water treatment practices

**Media Coverage:**



